



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

1 अगस्त 2008



खंड 23

संख्या 31

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2007	2008		घट-बढ़	
	27 जुलाई	18 जुलाई	25 जुलाई #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	5,01,192	6,16,344	6,10,321	-6,023	1,09,129
संचलन में नोट	5,01,178	6,16,330	6,10,304	-6,026	1,09,126
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	14	17	4	3
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	100	100	101	—	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	88,010	1,71,440	1,71,327	-112	83,317
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,32,827	3,01,824	3,26,959	25,135	94,132
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,399	4,218	4,277	59	1,878
अन्य बैंक	9,590	14,924	14,868	-56	5,278
अन्य	58,547	11,929	11,841	-88	-46,706
अन्य देयताएं	1,32,288	3,30,229	3,08,577	-21,652	1,76,289
कुल देयताएं / आस्तियां	10,24,995	14,51,050	14,48,313	-2,737	4,23,318
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	8,82,854	12,72,151	12,53,679	-18,472	3,70,825
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	27,655	39,548	39,548	—	11,893
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	75,985	1,12,421	1,27,534	15,112	51,549
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	20,199	—	—	—	-20,199
राज्य सरकारें	1,066	—	—	—	-1,066
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	—	4,068	5,493	1,425	5,493
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10	—	9	9	-1
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	83	138	263	125	180
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	2,750	2,750	—	—
अन्य आस्तियां	14,392	19,974	19,038	-936	4,646

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	25 जुलाई 2008 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2008 की समाप्ति पर		दिसंबर 2007 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	12,95,449	306,603	-18,508	-504	57,484	-3,121	2,10,429	31,287	3,83,050	81,253
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,53,679	296,869	-18,472	-502 *	57,656	-2,361	2,03,194	30,316	3,70,825	78,773
(ख) स्वर्ण	39,548	9,208	—	—	-576	-831	6,729	880	11,893	2,421
(ग) विशेष आहरण अधिकार	47	11	—	—	-27	-8	34	8	-2	-1
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	2,175	515	-36	-2	431	79	472	83	334	60

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	18 जुलाई 2008 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2007-2008	2008-2009	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	39,998	-1,114	-4,262	-6,781	5,914	3,488
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	30,116	526	-10,955	-2,880	-3,468	5,672
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	30,995	-1,976	4,042	12,616	8,248	14,579
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	33,06,351	-1,874	1,21,559	1,09,412	5,38,797	5,72,859
		(-0.1)	(4.7)	(3.4)	(24.5)	(21.0)
मांग	4,48,367	-22,445	-37,210	-75,943	65,917	55,847
मीयादी	28,57,984	20,571	1,58,769	1,85,355	4,72,880	5,17,012
उधार ⁽³⁾	1,00,324	-3,245	-3,154	-6,180	288	17,642
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,96,593	-4,287	-20,069	-1,762	37,184	74,428
रिजर्व बैंक से उधार	4,068	2,530	-6,244	68	-1	4,067
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,20,960	32,488	32,249	45,794	97,713	92,351
पास में नकदी	19,137	146	-413	1,093	3,783	3,411
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,01,824	32,342	32,661	44,702	93,930	88,941
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	35,205	1,004	-1,114	-811	3,637	6,849
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	12,994	-2,045	-6,731	-6,932	713	1,458
बैंकों को अग्रिम	2,419	-988	-2,805	-1,360	-67	-979
अन्य आस्तियां	42,045	-1,949	-1,547	10,889	9,743	20,089
निवेश⁽⁵⁾	9,90,409	-24,973	62,444	18,694	90,231	1,36,449
		(-2.5)	(7.9)	(1.9)	(11.8)	(16.0)
सरकारी प्रतिभूतियों में	9,71,824	-24,803	62,968	13,163	91,443	1,32,798
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	18,585	-170	-525	5,531	-1,212	3,651
बैंक ऋण	24,07,860	-720	-17,135	45,946	3,65,947	4,93,805
		(—)	(-0.9)	(1.9)	(23.6)	(25.8)
खाद्य ऋण	50,360	-361	-5,224	5,961	5,240	9,063
खाद्येतर ऋण	23,57,500	-359	-11,910	39,986	3,60,707	4,84,742
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	23,09,017	56	-8,093	47,441	3,61,352	4,73,240
देशी बिल - खरीदे गए	12,074	-1	-4,407	-520	1,915	563
भुनाए गए ⁽⁶⁾	43,523	-180	748	2,970	2,917	11,462
विदेशी बिल - खरीदे गए	17,629	1,938	-3,342	1,130	311	4,829
भुनाए गए	25,616	-2,533	-2,040	-5,075	-548	3,712
नकद-जमा अनुपात	9.71					
निवेश-जमा अनुपात	29.95					
ऋण-जमा अनुपात	72.83					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2007		2008				
	20 जुलाई	13 जून	20 जून	27 जून	4 जुलाई	11 जुलाई	18 जुलाई
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.50	8.25	8.25	8.25	8.25	8.50	8.50
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	12.75-13.25	12.25-12.75	12.25-12.75	12.50-12.75	12.75-13.25	12.75-13.25	12.75-13.25
जमा दर ⁽⁴⁾	7.50-9.60	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.50	8.75-9.50	8.75-9.50
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	0.20/0.65	5.50/8.40	2.50/8.50	6.50/10.25	3.60/9.75	7.00/10.00	5.00/9.17
- दिये गए उधार	0.20/0.65	5.50/8.40	2.50/8.50	6.50/10.25	3.60/9.75	7.00/10.00	5.00/9.17

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

(करोड रुपए)

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

— : पिछले वर्ष के तदनुरूपी दिन बाजार बंद।

1. स्वयंपूर्ति पानिमेव दर प्रणाली 1 मई 1993 से लागू हुई।
2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2007		2008	
	31 मार्च #	18 जुलाई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	40,06,722	41,47,422	1,225	—	1,41,021	4.3	1,40,700	3.5	6,20,636	21.9	6,90,307	20.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	5,67,476	6,03,178	2,503	0.4	12,726	2.6	35,702	6.3	60,445	13.9	1,07,546	21.7
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	5,74,408	4,96,367	-22,337	-4.3	-39,836	-8.4	-78,041	-13.6	68,569	18.7	60,515	13.9
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	28,55,769	30,42,961	21,072	0.7	1,63,276	6.9	1,87,192	6.6	4,85,030	23.9	5,29,681	21.1
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	9,069	4,916	-13	-0.3	4,855	64.8	-4,153	-45.8	6,591	114.4	-7,436	-60.2
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	9,07,077	9,76,429	24,954	2.6	80,964	9.7	69,352	7.6	1,10,383	13.7	61,231	6.7
(क) रिजर्व बैंक	-1,13,209	-59,096	49,926		19,461		54,113		23,121		-80,980	
(ख) अन्य बैंक	10,20,286	10,35,526	-24,972	-2.4	61,503	7.4	15,240	1.5	87,262	10.8	1,42,211	15.9
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	25,69,912	26,27,790	585	—	-12,151	-0.6	57,878	2.3	3,80,661	21.9	5,09,864	24.1
(क) रिजर्व बैंक	1,788	1,438	57	4.1	-154	-10.0	-351	-19.6	-1	-0.1	54	3.9
(ख) अन्य बैंक	25,68,124	26,26,353	528	—	-11,997	-0.6	58,229	2.3	3,80,662	21.9	5,09,809	24.1
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,95,131	13,70,683	-18,363	-1.3	12,534	1.4	75,552	5.8	1,25,390	15.7	4,44,970	48.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	9,324	9,486	—	—	330	4.0	161	1.7	705	8.9	895	10.4
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	7,74,723	8,36,967	5,951	0.7	-59,345	-10.4	62,244	8.0	-3,497	-0.7	3,26,652	64.0
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2,10,206	3,15,879	-1,112	-0.4	-3,333	-1.9	1,05,673	50.3	-14,798	-7.9	1,42,193	81.9

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 की शेष सरकारी राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2007		2008	
	31 मार्च #	25 जुलाई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	9,28,417	9,70,721	19,023	2.0	51,456	7.3	42,304	4.6	1,78,997	30.8	2,10,275	27.7
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,90,901	6,19,789	-6,026	-1.0	5,570	1.1	28,888	4.9	62,925	14.1	1,10,021	21.6
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	3,28,447	3,46,104	25,137	7.8	47,521	24.1	17,657	5.4	1,16,248	90.4	1,01,288	41.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	9,069	4,828	-88	-1.8	-1,635	-21.8	-4,242	-46.8	-176	-2.9	-1,034	-17.6
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	-1,13,209	-43,889	15,208		6,755		69,320		12,148		-53,066	
	-1,14,636	-43,847	15,208		6,016		70,789		11,128		-51,999	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	6,378	7,064	1,558		-7,779		686		-2,926		5,671	
	4,590	5,587	1,519		-7,625		997		-2,925		5,577	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	12,93,210	-18,472	-1.4	44,339	5.1	57,080	4.6	1,50,710	19.8	3,82,718	42.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	9,324	9,486	—	—	330	4.0	161	1.7	705	8.9	895	10.4
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2,10,206	2,95,150	-20,729	-6.6	-7,811	-4.4	84,944	40.4	-18,360	-9.8	1,25,943	74.4

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) /कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21 जुलाई 2008	1	44	52,315	44	52,315	8.50	—	—	—	—	—	52,315	-52,315
22 जुलाई 2008	1	39	44,265	39	44,265	8.50	—	—	—	—	—	44,265	-44,265
23 जुलाई 2008	1	40	47,480	40	47,480	8.50	—	—	—	—	—	47,480	-47,480
24 जुलाई 2008	1	37	40,710	37	40,710	8.50	—	—	—	—	—	40,710	-40,710
25 जुलाई 2008	3	40	43,260	40	43,260	8.50	—	—	—	—	—	43,260	-43,260

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 2 जनवरी	4 जनवरी	500	71	3,411	1,000	7	500	1,000	—	1,500	98.28	7.0196	38,498
2008-2009 2 अप्रैल	4 अप्रैल	500	49	2,633	4,500	3	500	4,500	—	5,000	98.30	6.9366	43,457
2 जुलाई	4 जुलाई	500	68	2,131	750	10	500	750	—	1,250	97.87	8.8131	56,454
23 जुलाई	25 जुलाई	3,000	115	6,686	750	43	3,000	750	—	3,750	97.80	9.0646	55,632
182-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 9 जनवरी	11 जनवरी	1,500	62	3,102	—	29	1,500	—	—	1,500	96.55	7.2308	22,880
2008-2009 2 अप्रैल	4 अप्रैल	500	52	2,095	—	2	500	—	—	500	96.56	7.1877	14,785
9 जुलाई	11 जुलाई	1,500	84	3,923	500	44	1,500	500	—	2,000	95.58	9.3401	20,288
23 जुलाई	25 जुलाई	1,500	83	4,232	—	23	1,500	—	—	1,500	95.58	9.3181	19,683
364-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 2 जनवरी	4 जनवरी	1,000	98	6,415	—	8	1,000	—	—	1,000	93.16	7.3855	58,034
2008-2009 9 अप्रैल	11 अप्रैल	2,000	95	4,698	—	44	2,000	—	—	2,000	93.18	7.3739	57,075
2 जुलाई	4 जुलाई	1,000	107	3,386	9	14	1,000	9	—	1,009	91.78	9.1716	56,220
16 जुलाई	18 जुलाई	2,000	110	4,704	250	49	2,000	250	—	2,250	91.42	9.4470	55,886

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों को अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18 जुलाई 2008	5 जुलाई	6 जुलाई	7 जुलाई	8 जुलाई	9 जुलाई	10 जुलाई	11 जुलाई	12 जुलाई	13 जुलाई	14 जुलाई	15 जुलाई	16 जुलाई	17 जुलाई	18 जुलाई
	2,74,172	5,48,345	8,51,797	11,50,558	14,56,641	17,61,714	20,75,895	23,92,597	27,09,013	30,03,186	33,14,978	36,20,023	39,18,132	42,19,766
1 अगस्त 2008	19 जुलाई	20 जुलाई	21 जुलाई	22 जुलाई	23 जुलाई	24 जुलाई	25 जुलाई	26 जुलाई	27 जुलाई	28 जुलाई	29 जुलाई	30 जुलाई	31 जुलाई	1 अगस्त
	3,07,113	6,14,226	9,37,381	12,55,622	15,85,327	19,10,652	22,37,099							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
6 जुलाई 2007	1,02,992	4,186	6.25 — 9.69
12 अक्टू. 2007	1,22,142	9,398	6.87 — 10.00
4 जनवरी 2008	1,27,154	9,453	6.87 — 9.82
11 अप्रैल 2008	1,49,986	8,461	8.00 — 9.72
20 जून 2008	1,63,143	6,257	8.62 — 9.79
4 जुलाई 2008	1,64,557	4,094	8.30 — 10.60

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जुलाई 2007	28,129	4,200	4.00 — 11.50
15 अक्टूबर 2007	38,495	6,977	7.00 — 13.00
15 जनवरी 2008	42,392	5,589	7.35 — 12.50
15 अप्रैल 2008	35,794	6,283	7.74 — 10.25
15 जून 2008	45,983	6,680	8.25 — 11.60
30 जून 2008	46,847	5,245	9.00 — 12.25

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2007	2008			निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		14 जुलाई	17 मई *	12 जुलाई #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
सभी पण्य	100.00	213.6	230.8	239.0	0.1	1.2	5.4	11.9	
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	224.7	241.1	247.5	0.6	1.9	4.5	10.1	
(i) फल और सब्जियां	2.92	244.2	250.4	252.5	2.4	6.2	5.3	3.4	
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	321.8	347.2	376.3	—	0.4	10.1	16.9	
विनिर्मित उत्पाद	63.75	185.6	201.3	205.5	—	1.3	4.1	10.7	
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	155.5	156.9	156.4	0.1	0.1	-1.2	0.6	
(ii) खाद्य तेल	2.76	171.7	186.8	201.3	-0.3	3.4	2.6	17.2	
(iii) सीमेंट	1.73	215.5	222.0	221.9	—	1.3	0.3	3.0	
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	268.3	352.4	362.6	—	1.3	2.8	35.1	

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2007	2008				
	25 जुलाई	21 जुलाई	22 जुलाई	23 जुलाई	24 जुलाई	25 जुलाई
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	15699.33	13850.04	14104.20	14942.28	14777.01	14274.94
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	4588.70	4159.50	4240.10	4476.80	4433.55	4311.85

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	13 जून 2008	20 जून 2008	27 जून 2008	4 जुलाई 2008	11 जुलाई 2008	18 जुलाई 2008	25 जुलाई 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	9,044	9,413	12,843	8,957	13,927	12,086	13,602
ख) दिए गए ऋण	9,744	10,114	13,750	9,622	14,285	12,442	13,766
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	714	707	953	683	393	405	252
ख) दिए गए ऋण	14	6	46	18	35	50	88
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,758	10,120	13,796	9,640	14,320	12,492	13,854
ख) दिए गए ऋण	9,758	10,120	13,796	9,640	14,320	12,492	13,854

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	20 जून 2008	27 जून 2008	4 जुलाई 2008	11 जुलाई 2008	18 जुलाई 2008	25 जुलाई 2008
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	52,199	53,715	26,075	43,568	31,152	43,561
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	136	633	3,566	208	317	186
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	3,322	2,433	467	1,605	986	1,623
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	8	851	792	685	204	986
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	471	1,444	3,010	2,236	1,052	988
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	4,140	4,676	2,899	2,666	771	900

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
7 जुलाई 2008	2,399	798	614	736	818	676	4,665	6,057	501	3,483	1,772	197
8 जुलाई 2008	1,617	977	448	554	724	962	4,507	6,720	539	3,460	1,291	163
9 जुलाई 2008	1,831	965	994	399	885	852	5,161	7,275	685	3,441	958	74
10 जुलाई 2008	2,459	876	661	425	832	904	5,753	6,162	1,252	4,013	2,500	216
11 जुलाई 2008	1,723	1,939	1,086	362	761	643	6,220	7,964	1,006	3,682	1,948	122
बिक्री												
7 जुलाई 2008	2,317	1,309	392	573	784	719	4,488	6,422	545	3,549	1,733	182
8 जुलाई 2008	1,939	1,270	359	610	782	942	4,134	6,694	587	3,444	1,165	125
9 जुलाई 2008	1,754	1,387	559	415	824	920	4,408	7,196	771	3,418	953	53
10 जुलाई 2008	2,258	1,040	682	432	875	818	4,914	6,210	1,373	4,039	2,425	156
11 जुलाई 2008	1,530	1,621	653	369	771	661	5,593	7,644	926	3,621	1,926	106

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	20 जून 2008	27 जून 2008	4 जुलाई 2008	11 जुलाई 2008	18 जुलाई 2008	25 जुलाई 2008
1	2	3	4	5	6	7
राशि	282.65	371.89	722.89	131.10	223.88	259.02

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	25 जुलाई 2008					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	12,320	4,810	23,631	40,761	251	1,457
राज्य सरकारें	43,637	27,131	8,183	5,194	84,146	1,509	-13,470
अन्य	2,013	16,181	6,690	27,060	51,944	-188	6,209

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्वमेंट) / निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2008-2009 (25 जुलाई 2008 तक)	2007-2008 (27 जुलाई 2007 तक)	2007-2008	2008-2009 (25 जुलाई 2008 तक)	2007-2008 (27 जुलाई 2007 तक)	2007-2008
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	72,000	73,000	1,56,000	47,982	45,232	1,10,671
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैंके खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	2,039 21,122	1,960 35	7,587 13,510	—	—	—

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)®

(राशि करोड़ रुपये में)

यद	18 जुलाई 2008 को समाप्त सप्ताह			25 जुलाई 2008 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2008-09	130	9.5999	9.8001	370	9.4943	9.7500
2009-10	3,321	9.2614	9.5926	1,374	8.9948	10.4591
2010-11	509	9.3693	9.6339	1,156	9.1762	9.4308
2011-12	275	9.1320	9.7118	340	9.2228	9.5911
2012-13	1,062	9.5329	9.8255	35	9.4096	9.4919
2013-14	—	—	—	256	9.0983	9.3995
2014-17	782	9.3087	10.0500	579	9.1450	9.4501
2017-18	161	9.3804	9.5100	191	9.0778	9.2816
2018 से आगे	9,335	9.2212	10.1324	17,479	8.9216	10.0376
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	159	9.6399	9.7889	93	9.3448	9.7011
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	90	6.2998	9.1478	43	6.2998	8.8984
ख) 15 - 91 दिन	523	8.5001	9.0646	779	8.1600	9.2502
ग) 92 - 182 दिन	253	8.7599	9.2501	582	8.7599	9.2962
घ) 183 - 364 दिन	255	8.6012	9.4230	395	9.0800	9.1800
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	1			—		
: खरीद	770			900 +		
III. रेपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	45,345	0.50 (1)	10.60 (90)	38,061	6.00 (1)	9.40 (30)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	64	6.00 (3)	6.00 (3)	131	8.40 (1)	8.75 (4)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	45	8.65 (3)	8.65 (3)	—	—	—
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	300	8.90 (1)	9.00 (1)	—	—	—
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,706	8.45 (1)	8.60 (3)	1,501	8.50 (1)	8.75 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो * ^	1,67,920	—	8.50	2,28,030	—	8.50
: रिवर्स रेपो !	5	—	6.00	—	—	—

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम संकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फ्रस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

+ : इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों के 900 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 550 रुपये और 1,500 रुपये तथा विदेश में क्रमशः 34 अमरीकी डॉलर और 85 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फ़ैक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।